

समाधान योजना 2010

प्राप्ति
समिति

प्रपत्र-एक
सहमति प्राप्ति के लिए प्रपत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा) प्रतियों के द्वारा दी गई शब्दान्तरों के साथ समाधान योजना 2010 के लिए आवेदन पत्र।

प्रेषक, दिनांक
.....

सेवा में,

सदस्य—सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

(लगातार नामांकित)

महोदय,

मैं/हम एतद्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 21 के अधीन उत्सर्जन (इमिसन) जारी रखने की सहमति के लिए आवेदन पत्र।

तक की अवधि के लिए उत्सर्जन करने हेतु सहमति के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. अनुलग्नक/परिशिष्टियां, अन्य विशिष्टियां और नकशे इसके साथ तीन प्रतियों में संलग्नक हैं।

2. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुलग्नक/परिशिष्टियों और नक्शों में दी हुई सूचना जहां तक मेरी/हमारी जानकारी है सही है।

3. मैं/हम एतद्वारा सहमति अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास पूर्व सहमति के नवीनीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के लिए राजी हूँ/हैं।

4. मैं/हम कोई अन्य सूचना बोर्ड द्वारा मांग की जाने के एक मास के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर
.....

आवेदन का नाम.....
.....

आवेदन का पता.....
.....

संलग्नक :

- (एक) अनुक्रमिका/स्थल नक्शा
- (दो) स्थलाकृति नक्शा (टोपोग्राफिकल मैप)
- (तीन) उत्सर्जन की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं और स्थल श्रोतों की विस्तृत विन्यास योजना और धुँआरों (स्टेक्स) की चिमनियों की स्थिति।
- (चार) प्रोसेस फ्लोशीट।
- (पांच) नवीनतम विश्लेषण रिपोर्ट
- (छ.) वायु प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का व्योरा जिनकी व्यवस्था की गई है या जिनकी व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- (सात) आस—पास के वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट यदि उपलब्ध हों।
- (आठ) सहमति फीस के रूप में के पक्ष में (द्वान आन) का ड्राफ्ट संख्या का ड्राफ्ट द्वारा द्वारा
- रूपये का दिनांक का ड्राफ्ट संख्या का ड्राफ्ट द्वारा द्वारा

प्रपत्र का अनुलग्नक

चिमनी

वर्तमान

नयी परिवर्तित

टिप्पणी — यदि कोई आवेदन उसके (चिमनी) के संबंध में जान बूझकर गलत सूचना देगा या कोई सूचना छिपायेगा तो उस पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यवाई की जायेगी।

इस अनुलग्नक को भरते समय, आवेदक ऐसी मदों के सम्बन्ध में, जो उसके कार्यकलाप से संबंधित न हो 'प्रयोज्य नहीं' लिखेगा और खाली स्थान नहीं छोड़ेगा।

1—आवेदक का पूरा नाम पता

(टेलीफोन संख्या)

2—भूमि/परिसर/संस्थान/कारखाना

उद्योग/स्थानिय निकाय का नाम

और पता।

(टेलिफोन संख्या)

3—ऐसी भूमि/परिसरकी जिसके लिए

जिला

आवेदन—पत्र दिया जाए राजस्व

कस्बा

नगर सर्वेक्षण संख्या दीजिए।

ग्राम

नगर सर्वेक्षण संख्या

राजस्व सर्वेक्षण संख्या

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

4—उस मास और वर्ष का उल्लेख करें जिसमें

संयंत्र को वास्तविक रूप में चालू किया गया।

या चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

5—सिविल/सैनिक रक्षा/औद्योगिक संस्थान आदि का

जिला

उल्लेख/करें जिसकी प्रशासनिक अधिकारिता में

नियम

अध्यासियों को औद्योगिक संयंत्र स्थित हो।

नगर पालिका

पत्तन न्यास

राज्य सरकार

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार

वायु पत्तन अधिकारी

हाँ / नहीं

6- (क) क्या संयन्त्र को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है?

(ख) यदि हाँ, तो प्रधिकारी का नाम बताइये और उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कीजिए जिसके अधीन क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया।

7- प्रतिवर्ष संयन्त्र का कार्यकाल (वर्किंग सीजन) उल्लिखित करें।

पूरे वर्ष

से

तक

से

तक

से

तक

लगातार / बैचबार

प्रति वर्ष

8- (क) प्रतिदिन कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या

(ख) परिसर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या

9- स्थल के आस-पास (5 किमी० अर्धव्यास) की भूमि का

(एक) 1000 से अधिक जनसंख्या की बस्तियां (जनसंख्या और)

वर्तमान उपयोग इंगित करें:

संयन्त्र से दूरी विनिर्दिष्ट करें

(दो) वाणिज्यिक

(तीन) औद्योगिक

(चार) मत्स्य पालन

(पांच) अभ्यारण्य / राष्ट्रीय पार्क /

पहाड़ियां / पर्वत

(छ:) प्राचीन स्मारक

- 10— जलवायु और मौसम सम्बन्धी व्योरा (यदि उपलब्ध हो)
- स्थल पर जलवायु की दशा (अर्थात् शुष्क, अर्धशुष्क आदि बताइये)
 - वर्षा, वार्षिक औसत रेंज
 - तापमान, मौसमी रेंज
 - वायु की गति और दिशा सम्बन्धी सूचना
 - आद्रता, सौर बिकिरण—

11— प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री (मेटीरियल) की मीट्रिक टन में दैनिक सूची दीजिए :—

कच्ची सामग्री की सूची	मुख्य उपयोग	टन में/ दैनिक मात्रा
-----------------------	-------------	----------------------

इस विवरण के साथ प्रोसेस फ्लो डाइग्राम अवश्य होना चाहिए जिसमें समस्त कच्ची सामग्री आने जाने का स्थान अन्तर्वर्ती उत्पाद, उपोत्पाद और तैयार उत्पाद, लेबिल लगाने की प्रक्रिया और नियन्त्रण उपस्कर दिखाया जायेगा।

12— टन में/ दैनिक ईंधन का उपयोग

कोयला	तेल	डीजल	लकड़ी	प्राकृतिक गैस	अन्य विनिर्दिष्ट कीजिये
-------	-----	------	-------	---------------	-------------------------

1— टन में दैनिक उपभोग

2— क्लोरिफिक मूल्य

3— राख का अंश प्रतिशत

4— गन्धक का अंश प्रतिशत

5— अन्य विनिर्दिष्ट कीजिए

13- प्रत्येक धुँआरा (स्टैक) का वायुमण्डलीय उत्सर्जन

(एक) धुँआरा संख्या

(दो) धुँआरा के निर्माण की सामग्री

(तीन) संलग्न धुँआरा

(चार) धुँआरा की ऊँचाई

(क) छत के ऊपर मीटर में

(ख) जमीन की सतह के ऊपर मीटर में

(पाँच) धुँआरा का शीर्ष :

(क) गोल या वृत्ताकार

(ख) शीर्ष पर भीतरी आयाम

(छ:) फ्लू गैस तापमान, सें

(सात) गैस के निकलने की गति—एम/से

(क) फ्लू गैस का उत्सर्जन

मिली ग्राम/एम³ में फ्लू गैस का विश्लेषण

धुँआरा संख्या	ईधन का प्रकार	ईधन की मात्रा प्रति घंटा	ईधन का प्रकार	एस ओ ²	एच सी सी ओ.	विशिष्टियाँ	अन्य विनिर्दिष्टियाँ कीजिए
---------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	----------------------------

(ख) प्रक्रिया उत्सर्जन

गैस की मात्रा घन मी ³	एस ओ 2	सी ओ 2	एन ओ एक्स	एम जी/एम ³ में वैन्ट गैस का विश्लेषण	हाईड्रोकार्बन	विशिष्टियाँ	अन्य विनिर्दिष्टियाँ कीजिए
प्रति घंटा	2	2					

(ग) भिन्न कण (पार्टी कुलेट) विश्लेषण (यदि उपलब्ध हो, आकार वितरण)	धुँआरा संख्या
50 / U..... प्रतिशत
10 / U..... प्रतिशत
5 / U..... प्रतिशत
3 / U..... प्रतिशत
1 / U..... प्रतिशत
(दो) रसायनिक रचना (यदि उपलब्ध हो)	
14— फ्लू गैस का नमूना लेने की व्यवस्था का व्योरा दीजिए।	प्रतिशत विनियोग के लिए (प्रति)
15— उत्सर्जन के विलेषण के लिए उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं का व्योरा दीजिए।	प्रतिशत विनियोग के लिए (प्रति)
16— क्या वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपस्कर लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।	प्रतिशत विनियोग के लिए (प्रति)
17— वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली का व्योरा।	प्रतिशत विनियोग के लिए (प्रति)
(क) वर्तमान
विस्तृत विनिर्दिष्टियां दीजिए (ख) प्रस्तावित
(क्लेक्टर, प्रिसिपिटेटर, स्क्रवर इत्यादि)	
18— वातायन उपस्कर द्वारा संचालित वायु की कुल मात्रा बताइए स्थापित या स्थापित किये जाने वाले उपस्करों का आकार और संख्या लिखिए :
19— निम्नलिखित व्योरा दीजिए :	
(क) कारखाने में कुल विनिधान और विधानिधान का वर्ष	
(ख) वायु प्रदूषण नियन्त्रण की योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित व्यय।	
(ग) वायु प्रदूषण नियन्त्रण के लिए अब तक किया गया व्यय और की गई प्रगति (भौतिक) यदि कोई हो और विविधान का वर्ष और की गई भौतिक प्रगति, फर्म की योजना को पूरा करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही का व्योरा और किए गए व्यय और अपेक्षित समय का उल्लेख करना चाहिए।	
(घ) वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र का, यदि कोई हो, वार्षिक सक्रिया और अनुरक्षण व्यय।	
(ङ) फर्म द्वारा वायु प्रदूषण का नियन्त्रण करने के लिए अग्रसर कार्यवाही जो की जा रही हो।	

20— अन्य सुसंगत सूचना यदि कोई हो

क्रमांक	प्रक्रिया	क्रमांक कार्यपाल	उपलब्धि वर्णन
01	08	आवेदक का हस्ताक्षर
02	09	आवेदक का नाम और पता
03	10	फार्म का नाम और पता जिसकी
04	11	ओर से आवेदन पत्र दिया जाए।
05	12	
06	13	
07	14	
08	15	
09	16	
10	17	
11	18	
12	19	
13	20	
14	21	
15	22	
16	23	
17	24	
18	25	
19	26	
20	27	
21	28	
22	29	
23	30	
24	31	
25	32	
26	33	
27	34	
28	35	
29	36	
30	37	
31	38	
32	39	
33	40	
34	41	
35	42	
36	43	
37	44	
38	45	
39	46	
40	47	
41	48	
42	49	
43	50	
44	51	
45	52	
46	53	
47	54	
48	55	
49	56	
50	57	
51	58	
52	59	
53	60	
54	61	
55	62	
56	63	
57	64	
58	65	
59	66	
60	67	
61	68	
62	69	
63	70	
64	71	
65	72	
66	73	
67	74	
68	75	
69	76	
70	77	
71	78	
72	79	
73	80	
74	81	
75	82	
76	83	
77	84	
78	85	
79	86	
80	87	
81	88	
82	89	
83	90	
84	91	
85	92	
86	93	
87	94	
88	95	
89	96	
90	97	
91	98	
92	99	
93	100	
94	101	
95	102	
96	103	
97	104	
98	105	
99	106	
100	107	
101	108	
102	109	
103	110	
104	111	
105	112	
106	113	
107	114	
108	115	
109	116	
110	117	
111	118	
112	119	
113	120	
114	121	
115	122	
116	123	
117	124	
118	125	
119	126	
120	127	
121	128	
122	129	
123	130	
124	131	
125	132	
126	133	
127	134	
128	135	
129	136	
130	137	
131	138	
132	139	
133	140	
134	141	
135	142	
136	143	
137	144	
138	145	
139	146	
140	147	
141	148	
142	149	
143	150	
144	151	
145	152	
146	153	
147	154	
148	155	
149	156	
150	157	
151	158	
152	159	
153	160	
154	161	
155	162	
156	163	
157	164	
158	165	
159	166	
160	167	
161	168	
162	169	
163	170	
164	171	
165	172	
166	173	
167	174	
168	175	
169	176	
170	177	
171	178	
172	179	
173	180	
174	181	
175	182	
176	183	
177	184	
178	185	
179	186	
180	187	
181	188	
182	189	
183	190	
184	191	
185	192	
186	193	
187	194	
188	195	
189	196	
190	197	
191	198	
192	199	
193	200	
194	201	
195	202	
196	203	
197	204	
198	205	
199	206	
200	207	
201	208	
202	209	
203	210	
204	211	
205	212	
206	213	
207	214	
208	215	
209	216	
210	217	
211	218	
212	219	
213	220	
214	221	
215	222	
216	223	
217	224	
218	225	
219	226	
220	227	
221	228	
222	229	
223	230	
224	231	
225	232	
226	233	
227	234	
228	235	
229	236	
230	237	
231	238	
232	239	
233	240	
234	241	
235	242	
236	243	
237	244	
238	245	
239	246	
240	247	
241	248	
242	249	
243	250	
244	251	
245	252	
246	253	
247	254	
248	255	
249	256	
250	257	
251	258	
252	259	
253	260	
254	261	
255	262	
256	263	
257	264	
258	265	
259	266	
260	267	
261	268	
262	269	
263	270	
264	271	
265	272	
266	273	
267	274	
268	275	
269	276	
270	277	
271	278	
272	279	
273	280	
274	281	
275	282	
276	283	
277	284	
278	285	
279	286	
280	287	
281	288	
282	289	
283	290	
284	291	
285	292	
286	293	
287	294	
288	295	
289	296	
290	297	
291	298	
292	299	
293	300	
294	301	
295	302	
296	303	
297	304	
298	305	
299	306	
300	307	
291	308	
292	309	
293	310	
294	311	
295	312	
296	313	
297	314	
298	315	
299	316	
300	317	
291	318	
292	319	
293	320	
294	321	
295	322	
296	323	
297	324	
298	325	
299	326	
300	327	
291	328	
292	329	
293	330	
294	331	
295	332	
296	333	
297	334	
298	335	
299	336	
300	337	
291	338	
292	339	
293	340	
294	341	
295	342	
296	343	
297	344	
298	345	
299	346	
300	347	
291	348	
292	349	
293	350	
294	351	
295	352	
296	353	
297	354	
298	355	
299	356	
300	357	
291	358	
292	359	
293	360	
294	361	
295	362	
296	363	
297	364	
298	365	
299	366	
300	367	
291	368	
292	369	
293	370	</td

पूंजीगत निवेश	सहमति शुल्क (वायु)	
	आरभिक शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
रु 1 लाख से कम	50	10
रु 1 लाख से रु 10 लाख तक	500	250
रु 10 लाख से रु 50 लाख तक	1,500	750
रु 50 लाख से रु 1 करोड़ तक	3,000	1,500
रु 1 करोड़ से रु 10 करोड़ तक	20,000	10,000
रु 10 करोड़ से रु 50 करोड़ तक	50,000	25,000
रु 50 करोड़ से रु 100 करोड़ तक	75,000	35,000
रु 100 करोड़ से रु 500 करोड़ तक	1,00,000	50,000
रु 500 करोड़ से रु 1000 करोड़ तक	1,50,000	75,000
रु 1000 करोड़ से रु 5000 करोड़ तक	2,50,000	1,25,000
रु 5000 करोड़ से रु 10000 करोड़ तक	5,00,000	2,50,000
रु 10000 करोड़ से अधिक	10,00,000	5,00,000

नोट :- सहमति (वायु) शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा जो कि "क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा" को देय होगा।